



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2006/कार्तिक 23, 1928

No. 167]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2006/KARTIKA 23, 1928

श्रम मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

हैदराबाद, 14 नवम्बर, 2006

सं.क.भ.नि.सं/अ.कें.आ./जी.एल.-240ए/1(4) की अधिसूचना/2006/4779.—जैसा कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में पाया है कि इन स्थापनाओं के नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 के 19) के उपबंधों को उनके निम्न विभिन्न स्थापनाओं को लागू किए जाने हेतु सहमत हैं :—

क्रम सं.	कोड नं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमती की तिथि
1	2	3	4
1.	केआर/केसी/21127	मैसर्स के. प्रसन्न एण्ड को., कोच्ची	1-3-2005
2.	केआर/केसी/22120	मैसर्स केरल ब्यूरो आफ इंडस्ट्रिज प्रमोशन, त्रिवेंद्रम	1-8-2005
3.	केआर/केसी/21125	मैसर्स फोर्टे गेट होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, कोच्ची	1-2-2005
4.	केआर/केसी/21192	मैसर्स यु.ए.ई. एक्सचेंज एण्ड फाइनेंस लि., कोच्ची	1-4-2005
5.	केआर/केसी/21275	मैसर्स श्री नारायणा गुरु धर्मा ट्रस्ट, कोच्ची	1-11-2005
6.	केआर/केसी/21277	मैसर्स तिरुवर करीस एण्ड लोन्स (प्रा.) लि., कोच्ची	1-11-2005
7.	केआर/टीवीएम/22123	मैसर्स गोलिली इन्वेस्टमेंट एण्ड क्रेडिट लि., त्रिवेन्द्रम	1-10-2005
8.	केआर/टीवीएम/20157	मैसर्स जवाहर बाल भवन एण्ड चिल्ड्रन लाइब्रेरी, कोट्टायम	1-5-2003
9.	केआर/केके/23035	मैसर्स कोषिकोड डिस्ट्रिक्ट हैण्डलूम वीवर्स को-ऑप. सोसाइटी, कोषिकोड	1-8-2005
10.	केआर/टीवीएम/22094	मैसर्स डीम कोट सरफेस फिनिशिंग सिस्टम्स (प्रा.) लि., त्रिवेन्द्रम	1-2-2005
11.	केआर/केसी/21244	मैसर्स एलाईट ट्रिस्ट होम, कोच्ची	1-7-2005

	2	3	4
12.	केआर/केएनआर/11864	मैसर्स ए.एम. हॉस्पिटल, कण्णूर	1-7-1991
13.	केआर/केएनआर/11937	मैसर्स कुट्टिकाकम रोडवेज, कण्णूर	1-5-1992
14.	केआर/केएनआर/11950	मैसर्स क्रीम पैक्स (प्रा.) लि., कण्णूर	1-6-1992
15.	केआर/केएनआर/11886	मैसर्स फाईव स्टार टैक्सटाईल्स, कण्णूर	1-11-1991
16.	केआर/केसी/21246	मैसर्स जगदम्बा ऑटो एजेंसीज, कोच्ची	1-7-2005
17.	केआर/16275	मैसर्स केरला स्टेट को-ऑप. टैक्सटाईल फेडरेशन लि., त्रिवेन्द्रम	1-1-1998
18.	केआर/केसी/21153	मैसर्स पैसिफिक टैक्स (प्रा.) लि., त्रिस्सूर	1-3-2005
19.	केआर/22134	मैसर्स मैरिअन प्ले होम, मन्नाथाला	1-11-2005
20.	केआर/22090	मैसर्स सॉफ्टनेट, तिरुमला	1-4-2005
21.	केआर/टीवीएम/22147	मैसर्स हेजेस बी सोल्युशंस प्रा. लि., टेक्नीपार्क	1-1-2005
22.	केआर/केसी/21288	मैसर्स मैत्री टाइल वर्क्स, त्रिचूर	1-11-2005
23.	केआर/केके/23060	मैसर्स जियो प्लास्टिक्स एण्ड पॉलिमर्स तिरुूर	18-11-2005
24.	केआर/केसी/21350	मैसर्स ग्रे मैटर ग्लोबल बिजनेस सेंटर, कोच्ची	1-1-2006
25.	केआर/केसी/21290	मैसर्स कम जेन्सीस, कोच्ची	1-9-2005
26.	केआर/केसी/21291	मैसर्स गोल्डन ट्रेडर्स, पेरुम्बावूर	1-9-2005
27.	केआर/टीवीएम/22141	मैसर्स स्पेरोस, पेट्टा, त्रिवेन्द्रम	1-1-2006
28.	केआर/केसी/19938	मैसर्स एच एण्ड सी स्टोर्स, कोच्ची	1-4-2004
29.	केआर/केएनआर/11954	मैसर्स द वलियन्नूर सर्विस को-ऑप. बैंक लि., वलियन्नूर, कण्णूर	1-8-1992

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम के उपबंधों का ऊपर उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के नाम के प्रति उल्लिखित तारीख से लागू करते हैं।

पी. सुधाकर बाबू, अपर केन्द्रीय भ.नि.आयुक्त (द.अ.)

[विज्ञापन III/IV/231सी/2006/असा]

MINISTRY OF LABOUR
(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 14th November, 2006

No. EPFO/Ace/SZ/GL-240A/Notifn. of 1(4)/2006/4779.— Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage & Consent
1	2	3	4
1.	KR/KC/21127	M/s. K.Prasannan & Co., Kochi	1-3-2005
2.	KR/KC/22120	M/s. Kerala Bureau of Industries Promotion, Trivandrum	1-8-2005
3.	KR/KC/21125	M/s. Forte Gate Hotels & Resorts (P.) Ltd., Kochi	1-2-2005
4.	KR/KC/21192	M/s. UAE Exchange & Finance Ltd., Kochi	1-4-2005

1	2	3	4
5.	KR/KC/21275	M/s. Sree Narayana Guru Dharma Trust, Kochi	1-11-2005
6.	KR/KC/21277	M/s. Thiroor Kuries & Loans (P.) Ltd., Kochi	1-11-2005
7.	KR/TVM/22123	M/s. Galilee Investments and Credit Ltd., Trivandrum	1-10-2005
8.	KR/TVM/20157	M/s. Jawahar Balabhavan and Childrens Library, Kottayam	1-5-2003
9.	KR/KK/23035	M/s. Kozhikode Distt. Handloom Weavers Co-op. Society, Kozhikode	1-8-2005
10.	KR/TVM/22094	M/s. Dream Coat Surface Finishing Systems (P.) Ltd., Trivandrum	1-2-2005
11.	KR/KC/21244	M/s. Elite Tourist Home, Kochi	1-7-2005
12.	KR/KNR/11864	M/s. A.M. Hospital, Kannur	1-7-1991
13.	KR/KNR/11937	M/s. Kutikkakam Roadways, Kannur	1-5-1992
14.	KR/KNR/11950	M/s. Cream Packs (P.) Ltd., Kannur	1-6-1992
15.	KR/KNR/11886	M/s. Five Star Textiles, Kannur	1-11-1991
16.	KR/KC/21246	M/s. Jagadamba Auto Agencies, Kochi	1-7-2005
17.	KR/16275	M/s. Kerala State Co-operative Textile Federation Ltd., Trivandrum	1-1-1998
18.	KR/KC/21153	M/s. Pacific Tanks (P.) Ltd., Thrissur	1-3-2005
19.	KR/22134	M/s. Marion Play Home, Mannathala	1-11-2005
20.	KR/22090	M/s. Softnet, Thirumala	1-4-2005
21.	KR/TVM/22147	M/s. Hages B. Solutions Pvt. Ltd., Technopark	1-1-2005
22.	KR/KC/21288	M/s. Mythri Tile Works, Trichur	1-11-2005
23.	KR/KK/23060	M/s. Geo Plastics & Polymers, Tiru	18-11-2005
24.	KR/KC/21350	M/s. Grey Mater, Global Business Centre, Kochi	1-1-2006
25.	KR/KC/21290	M/s. Kem Gencies, Kochi	1-9-2005
26.	KR/KC/21291	M/s. Golden Traders, Perumbavoor	1-9-2005
27.	KR/TVM/22141	M/s. Sparrows, Pettah, Trivandrum	1-1-2006
28.	KR/KC/19938	M/s. H & C Stores, Kochi	1-4-2004
29.	DR/KNR/11954	M/s. The Valiyannur Service Co-op. Bank Ltd., Valiyannur, Kannur	1-8-1992

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

P. SUDHAKAR BABU, Addl. Central P. F. Commissioner (SZ)

[ADVT. III/IV/231C/2006/Exty.]